

कक्षा-6

विषय- हिंदी

पुस्तक - हिंदी व्याकरण सुधा - भाग 6

पाठ - भाषा, लिपि और व्याकरण

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:

1. निम्नलिखित विषयवस्तु को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित कार्य-पत्रक को अभ्यास उत्तर पुस्तिका में कीजिए।
2. दी गई गतिविधि के लिए राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग कीजिए।
3. विस्तृत जानकारी के लिए दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए।

<https://www.youtube.com/watch?list=PL-yaRCIyOaPXRLNGKxmA7m7J-YZvh7Eh&v=SeDgpTzIXUE>

<https://www.youtube.com/watch?v=9Nii5tVcVIU>

पाठ का विवरण

भाषा

भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भावों/विचारों को व्यक्त करते हैं।

भाषा के भेद :-

क. मौखिक भाषा

ख. लिखित भाषा

1. मौखिक भाषा

जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही हो तब मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। मौखिक भाषा का सबसे अधिक प्रयोग नाटकों में होता है।

जैसे :- नाटक , भाषण, फ़िल्म , समाचार सुनना आदि।

2. लिखित भाषा

जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। यह लिपि पर आधारित होती है।

जैसे :- ग्रन्थ , पुस्तकें , अखबार , पत्र-पत्रिकाएँ आदि।

मातृभाषा क्या होती है :- जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं।

राजभाषा क्या होती है :- जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं।

राष्ट्रभाषा क्या होती है :- भारत में अनेक भाषाएँ बोली , पढ़ी , लिखी , सुनी जाती हैं। सब प्रदेशों की अपनी अलग भाषा होती है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है – संस्कृत , हिंदी , अंग्रेज़ी , उर्दू , असमिया , पंजाबी , नेपाली , तमिल , तेलुगु , कन्नड़ , गुजराती , बांग्ला , उड़िया , कश्मीरी , कोंकणी , मणिपुर , मराठी , मलयालम , मैथिलि , डोंगरी , बोडो , संथाली और सिंधी आदि। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने-अपने क्षेत्र में ही किया जाता है पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं।

लिपि

किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिह्न को लिपि कहते हैं।

भाषा	लिपि
हिंदी, संस्कृत, मराठी	देवनागरी
पंजाबी	गुरुमुखी
उर्दू, फ़ारसी	फ़ारसी
अरबी	अरबी
बंगला	बंगला
अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश	रोमन

व्याकरण

व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने , बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान होता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की ज़रूरत है।

अभ्यास कार्य

◆ सही विकल्प चुनिए-

प्रश्न १. भाषा किसे कहते हैं?

- क. वह भाषा जिससे बालक अपनी बाल्यावस्था में अपनी माता से सीखता है।
ख. जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर व लिखकर दूसरों को बता सकते हैं।
ग. उपरोक्त में से कोई नहीं

प्रश्न २. भाषा के कितने भेद होते हैं?

- क. दो ख. तीन ग. चार

प्रश्न ३. मौखिक भाषा किसे कहते हैं?

- क. जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं।
ख. जब हम लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराते हैं।

प्रश्न ४. लिखित भाषा किसे कहते हैं?

- क. मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों को सुनकर समझते हैं।
ख. लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराते हैं।

प्रश्न ५. मातृभाषा किसे कहते हैं?

- क. जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर व लिखकर दूसरों को बता सकते हैं।
ख. वह भाषा जिसे बालक अपनी बाल्यावस्था में अपनी माता से सीखता है।

प्रश्न ६. व्याकरण किसे कहते हैं?

- क. जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
- ख. जिसे बालक अपनी बाल्यावस्था में अपनी माता से सीखता है।
- ग. जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान-प्रदान करता है।
- घ. इनमें से कोई नहीं

प्रश्न ७. भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है ?

- क. संस्कृत
- ख. हिंदी
- ग. अंग्रेज़ी

प्रश्न ८. लिपि किसे कहते हैं?

- क. भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिह्न को
- ख. भाषा के मौखिक रूप को

प्रश्न ९. अंग्रेज़ी की लिपि क्या है?

- क. रोमन
- ख. गुरुमुखी
- ग. फ़ारसी

प्रश्न १०. रेडियो पर आप जो कार्यक्रम सुनते हैं, उसमें भाषा का रूप होता है?

- क. लिखित
- ख. मौखिक
- ग. कोई नहीं

प्रश्न ११. बांग्ला एक _____ है?

- क. भाषा
- ख. लिपि
- ग. व्याकरण

प्रश्न १२. इन भाषाओं में किस भाषाओं की लिपि देवनागरी नहीं है।

- क. हिंदी
- ख. उर्दू
- ग. संस्कृत

गतिविधि

प्रश्न १. पाँच सौ रुपये के नोट पर अंकित भाषाओं के नाम पता लगाकर लिखिए?

प्रश्न २. विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित भाषा बोलने वाले देशों की पहचान करते हुए उनके नाम और भाषा को लिखिए। मानचित्र को अभ्यास उत्तर पुस्तिका में लगाइए।

- रूसी
- अंग्रेज़ी
- जर्मन
- जापानी
- चीनी